

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10-04-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की

तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24 घंटो के

अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 56 वादो में कुल 689 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
- जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबकारी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि अपराधो में वांछित चल रहे कुल 30 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- थाना बिहारीगढ़ एवं थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं आर्म्स एक्ट में कुल 11 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटे मे कुल 193 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात की चौकी शेखपुरा कदीम में मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति समिति की मीटिंग कर शांतिपूर्वक मतदान करने के साथ-साथ कोविड 19-प्रोटोकाल के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इसके साथ-साथ जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुये शांतिपूर्ण तरीके संपन्न कराने हेतु अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुये मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर क्षेत्रवासियों को कोविड-19 के नियमो का पालन कराया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 10.04.2021

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स0पुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अम्बाला सहारनपुर हाईवे सरसावा बाईपास तिराहे के पास से दिनांक 10/04/2021 को समय सुबह करीब – 01.15 बजे अभियुक्तगण 1.सुनील पुण्डीर पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम रामखेडी थाना फतेहपुर जिला स0पुर 2.नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जिला स0पुर को मय दो अदद मो0सा0 1. HF Deluxe नं0 UP11BM 1360 2.सुपर स्पलेण्डर HR05R 1539 पर 10 -10 पेटी (240 बोतल) अवैध देशी शराब गैर प्रान्त हरियाणा मार्का की तस्करी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरो को प्रलोभन देने हेतु करते समय गिरफ्तार किये गये । बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर 1.मु0अ0सं0 119/21 धारा 63/72 आब0 अधि0 व धारा 171E भादवि 2.मु0अ0सं0 120/21 धारा 63/72 आब0 अधि0 व धारा 171E भादवि पंजिकृत किया गया ।

नाम पता अभियुक्त निम्न प्रकार है ।

1.सुनील पुण्डीर पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम रामखेडी थाना फतेहपुर जिला स0पुर

1.मु0अ0सं0 119/21 धारा 63/72 आब0 अधि0 व धारा 171E भादवि

2.नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जिला स0पुर

1.मु0अ0सं0 120/21 धारा 63/72 आब0 अधि0 व धारा 171E भादवि

बरामदगी का विवरण: -

1.10-10 पेटी (कुल 240 बोतल) देशी शराब गैर प्रान्त हरियाणा मार्का

2.मो0सा0 HF Deluxe नं0 UP11BM 1360

3.मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर HR05R 1539

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी के नाम:-

1.थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार

2.उ0नि0 श्री नरेश कुमार

3.कां0 1305 कपिल कुमार

4.कां0 1530 आदित्य कुमार

5.कां0 2058 उमेश कुमार

6.कां0 1831 सरल प्रताप ।

प्रेस नोट दिनांक 10-04-2021

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन करते 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-04-2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा ताजपुर रोड से अभि0 1-रामकुमार पुत्र बाबुराम, 2-सन्नी पुत्र शेरसिंह व 3-आदेश शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नागल, सहारनपुर को गाडी सं0 यूके 08एसी 9551 स्कॉरपियो से 04 पेटी देशी शराब परिवहन करते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 69/21 धारा 60(1)/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन करते 01 अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार :-

दिनांक 09-04-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा अम्बाला सहारनपुर हाईवे टोल प्लाजा के पास से अभि0 अंकित पुत्र सोहनलाल निवासी छपरा लाडवा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा को गाडी सं0 एचआर 26बीजी 9399 से 29 पेटी अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का मय 10 लीटर अपमिश्रित शराब व 1.5 किग्रा0 यूरिया परिवहन करते समय 01 अवैध तमंचे मय 01 जिन्दा कार0 .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 117/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 118/21 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-04-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम छिदवना मोड से अभि0 1-रवि पुत्र राजबल, 2-सुमित पुत्र सुन्दर लाल निवासी मोहम्मदपुर बहलोलपुर रामपुर, सहारनपुर, 3-सोवान पुत्र मेहरान व 4-इस्लाम पुत्र शरीफ निवासी चुन्हेडी गाडा थाना रामपुर, सहारनपुर को 144 पच्चे ठेका देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 112,113,114,115/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-04-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा ग्राम मुण्डी खेडी जंगल से अभि0 अनुज उर्फ बिल्लू पुत्र ओमसिंह निवासी मुण्डीखेडी थाना रामपुर, सहारनपुर को अवैध शराब की कसीदगी करते समय मौके से 39 लीटर शराब खाम व उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 116/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन करते 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-04-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम आल्हनपुर पुल के पास से अभि0 1-रिजवान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम लेदा खादर थाना छिछरोली यमुनानगर, हरियाणा व 2-रोहित पुत्र सतीश निवासी ग्राम लोपियों थाना छिछरोली यमुनानगर, हरियाणा को स्टीम कार सं0 एचआर 70सी 6810 से 60 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का व अंग्रेजी मैक्डबल 108 बोतल परिवहन करते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 104/21 धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।